



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2001/माघ 16, 1922

No. 52]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2001/MAGHA 16, 1922

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2001

सा.का.नि. 68(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से उपयुक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (.....संशोधन) नियम, 2001 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके अन्तिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट 'ख' में मदक 18-02-02 में, "सोया आटा, जो ऐसे मिश्रण में प्रयुक्त विस्फोटक निष्कर्मित आटा विलायक निष्कर्मित तेल, वितैलित आटा और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 के अधीन अधिकृत सोया के आटे के मानकों के अनुरूप होगा" शब्दों और अंकों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“सोया आटा, ऐसे मिश्रण में प्रयुक्त बिलायक निष्कर्षित आटा, जो मद क-18-15 के अधीन अधिकथित सोया आटा के मानकों के अनुरूप होगा।”

[सं. 15014/14/2000-पी एच (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का. नि. आ. 2105 तारीख 12-9-55 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा. का. नि. 7(अ) तारीख 4-1-2001 द्वारा संशोधित किए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February 2001

G.S.R. 68 (E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food adulteration Rules, 1955, which the Central Government after consultation with the Central Committee for Food Standards proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by the said sub-section of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of this official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1 (1) These rules may be called the prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 2001
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.
- 2 In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix 'B'

in item A 18-02-02, for the words and figures “Soya flour which is a solvent extracted flour used in such mix shall conform to the standards of soya flour laid down under Solvent Extracted Oil, Deoiled Meal and Edible flour (Control) Order, 1967”, the following shall be substituted, namely :—

“Soya flour which is a solvent extracted flour used in such mix shall conform to the standards of soya flour laid down under item A. 18.15.”

[P-15014/14/2000-PH (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy

Note : The PFA rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of Gazette of India, vide S R O 2105 dt 12-9-55 and were last amended vide G.S.R. No. 7(E) dated 4-1-2001.